




1063CH04

## द्विघात समीकरण

# 4

### 4.1 भूमिका

अध्याय 2 में, आपने विभिन्न प्रकार के बहुपदों का अध्ययन किया है।  $ax^2 + bx + c$ ,  $a \neq 0$  एक प्रकार का द्विघात बहुपद था। जब हम इस बहुपद को शून्य के तुल्य कर देते हैं, तो हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाती है। वास्तविक जीवन से संबंधित कई समस्याओं को हल करने में हम द्विघात समीकरणों का प्रयोग करते हैं। उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दो गुने से एक मीटर अधिक हो। कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए? माना कक्ष की चौड़ाई  $x$  मीटर है। तब, उसकी लंबाई  $(2x + 1)$  मीटर होनी चाहिए। हम इस सूचना को चित्रीय रूप में आकृति 4.1 जैसा दिखा सकते हैं।



आकृति 4.1

अब कक्ष का क्षेत्रफल =  $(2x + 1) \cdot x \text{ m}^2 = (2x^2 + x) \text{ m}^2$

इसलिए  $2x^2 + x = 300$  (दिया है)

अतः  $2x^2 + x - 300 = 0$

इसलिए, कक्ष की चौड़ाई, समीकरण  $2x^2 + x - 300 = 0$ , जो एक द्विघात समीकरण है, को संतुष्ट करना चाहिए।

अधिकांश लोग विश्वास करते हैं कि बेबीलोनवासियों ने ही सर्वप्रथम द्विघात समीकरणों को हल किया था। उदाहरण के लिए, वे जानते थे कि कैसे दो संख्याओं को ज्ञात किया जा सकता है, जिनका योग तथा गुणनफल दिया हो। ध्यान दीजिए कि यह समस्या

$x^2 - px + q = 0$  के प्रकार के समीकरण को हल करने के तुल्य है। यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने लंबाईयाँ ज्ञात करने की एक ज्यामितीय विधि विकसित की जिसको हम वर्तमान शब्दावली में द्विघात समीकरण के हल कहते हैं। व्यापक रूप में, द्विघात समीकरणों को हल करने का श्रेय बहुधा प्राचीन भारतीय गणितज्ञों को जाता है। वास्तव में, ब्रह्मगुप्त (सा.यु. 598-665) ने  $ax^2 + bx = c$  के रूप के द्विघात समीकरण को हल करने का एक स्पष्ट सूत्र दिया था। बाद में, श्रीधराचार्य (सा.यु. 1025) ने एक सूत्र प्रतिपादित किया, जिसे अब द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है, जो पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करने पर प्राप्त हुआ (जैसा भास्कर II ने लिखा)। एक अरब गणितज्ञ अल-ख्वारिज़्मी (लगभग सा.यु. 800) ने भी विभिन्न प्रकार के द्विघात समीकरणों का अध्ययन किया। अब्राहम बार हिय्या हा-नासी यूरो ने 1145 में छपी अपनी पुस्तक 'लिबर इंबाडोरम' में विभिन्न द्विघात समीकरणों के पूर्ण हल दिए।

इस अध्याय में, आप द्विघात समीकरणों और उनके हल ज्ञात करने की विभिन्न विधियों का अध्ययन करेंगे। दैनिक जीवन की कई स्थितियों में भी आप द्विघात समीकरणों के कुछ उपयोग देखेंगे।

## 4.2 द्विघात समीकरण

चर  $x$  में एक द्विघात समीकरण  $ax^2 + bx + c = 0$  के प्रकार की होती है, जहाँ  $a, b, c$  वास्तविक संख्याएँ हैं तथा  $a \neq 0$  है। उदाहरण के लिए,  $2x^2 + x - 300 = 0$  एक द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार,  $2x^2 - 3x + 1 = 0$ ,  $4x - 3x^2 + 2 = 0$  और  $1 - x^2 + 300 = 0$  भी द्विघात समीकरण हैं।

वास्तव में, कोई भी समीकरण  $p(x) = 0$ , जहाँ  $p(x)$ , घात 2 का एक बहुपद है, एक द्विघात समीकरण कहलाती है। परंतु जब हम  $p(x)$  के पद घातों के घटते क्रम में लिखते हैं, तो हमें समीकरण का मानक रूप प्राप्त होता है। अर्थात्  $ax^2 + bx + c = 0$ ,  $a \neq 0$ , द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है।

द्विघात समीकरण हमारे आसपास के परिवेश की अनेक स्थितियों एवं गणित के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होते हैं। आइए हम कुछ उदाहरण लें।

**उदाहरण 1 :** निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए :

- जॉन और जीवन्ती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों पाँच-पाँच कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने-कितने कंचे थे।
- एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य (₹ में) 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से

प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन, कुल निर्माण लागत ₹ 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे।

**हल :**

(i) माना कि जॉन के कंचों की संख्या  $x$  थी।

तब जीवन्ती के कंचों की संख्या  $= 45 - x$  (क्यों?)

जॉन के पास, 5 कंचे खो देने के बाद, बचे कंचों की संख्या  $= x - 5$

जीवन्ती के पास, 5 कंचे खोने के बाद, बचे कंचों की संख्या  $= 45 - x - 5$   
 $= 40 - x$

$$\begin{aligned} \text{अतः उनका गुणनफल} &= (x - 5)(40 - x) \\ &= 40x - x^2 - 200 + 5x \\ &= -x^2 + 45x - 200 \end{aligned}$$

$$\text{अब } -x^2 + 45x - 200 = 124 \quad (\text{दिया है कि गुणनफल} = 124)$$

$$\text{अर्थात् } -x^2 + 45x - 324 = 0$$

$$\text{अर्थात् } x^2 - 45x + 324 = 0$$

अतः जॉन के पास जितने कंचे थे, जो समीकरण

$$x^2 - 45x + 324 = 0$$

को संतुष्ट करते हैं।

(ii) माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या  $x$  है।

इसलिए, उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत (रुपयों में)  $= 55 - x$

अतः, उस दिन कुल निर्माण लागत (रुपयों में)  $= x(55 - x)$

$$\text{इसलिए } x(55 - x) = 750$$

$$\text{अर्थात् } 55x - x^2 = 750$$

$$\text{अर्थात् } -x^2 + 55x - 750 = 0$$

$$\text{अर्थात् } x^2 - 55x + 750 = 0$$

अतः उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या द्विघात समीकरण

$$x^2 - 55x + 750 = 0$$

को संतुष्ट करती है।

**उदाहरण 2 :** जाँच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण हैं या नहीं:

$$(i) (x - 2)^2 + 1 = 2x - 3$$

$$(ii) x(x + 1) + 8 = (x + 2)(x - 2)$$

$$(iii) x(2x + 3) = x^2 + 1$$

$$(iv) (x + 2)^3 = x^3 - 4$$

**हल :**

$$(i) \text{ बायाँ पक्ष} = (x - 2)^2 + 1 = x^2 - 4x + 4 + 1 = x^2 - 4x + 5$$

इसलिए  $(x - 2)^2 + 1 = 2x - 3$  को

$$x^2 - 4x + 5 = 2x - 3 \text{ लिखा जा सकता है।}$$

अर्थात्

$$x^2 - 6x + 8 = 0$$

यह  $ax^2 + bx + c = 0$  के प्रकार का है।

अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है।

$$(ii) \text{ चूँकि } x(x + 1) + 8 = x^2 + x + 8 \text{ और } (x + 2)(x - 2) = x^2 - 4 \text{ है,}$$

इसलिए

$$x^2 + x + 8 = x^2 - 4$$

अर्थात्

$$x + 12 = 0$$

यह  $ax^2 + bx + c = 0$  के प्रकार का समीकरण नहीं है। इसलिए, दिया हुआ समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है।

$$(iii) \text{ यहाँ बायाँ पक्ष} = x(2x + 3) = 2x^2 + 3x$$

अतः

$$x(2x + 3) = x^2 + 1 \text{ को लिखा जा सकता है:}$$

$$2x^2 + 3x = x^2 + 1$$

इसलिए

$$x^2 + 3x - 1 = 0 \text{ हमें प्राप्त होता है।}$$

यह  $ax^2 + bx + c = 0$  के प्रकार का समीकरण है।

अतः, दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है।

$$(iv) \text{ यहाँ बायाँ पक्ष} = (x + 2)^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$$

अतः

$$(x + 2)^3 = x^3 - 4 \text{ को लिखा जा सकता है:}$$

$$x^3 + 6x^2 + 12x + 8 = x^3 - 4$$

अर्थात्

$$6x^2 + 12x + 12 = 0 \text{ या } x^2 + 2x + 2 = 0$$

यह  $ax^2 + bx + c = 0$  के प्रकार का समीकरण है।

अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है।

**टिप्पणी :** ध्यान दीजिए कि उपर्युक्त (ii) में, दिया गया समीकरण देखने में द्विघात समीकरण लगता है, परंतु यह द्विघात समीकरण नहीं है।

उपर्युक्त (iv) में, समीकरण देखने में त्रिघात (घात 3 का समीकरण) लगता है और द्विघात नहीं लगता है। परंतु वह द्विघात समीकरण निकलता है। जैसा आप देखते हैं समीकरण को यह तय करने कि वह द्विघात है अथवा नहीं, हमें उसका सरलीकरण करना आवश्यक है।

### प्रश्नावली 4.1

1. जाँच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं :

(i)  $(x+1)^2 = 2(x-3)$

(ii)  $x^2 - 2x = (-2)(3-x)$

(iii)  $(x-2)(x+1) = (x-1)(x+3)$

(iv)  $(x-3)(2x+1) = x(x+5)$

(v)  $(2x-1)(x-3) = (x+5)(x-1)$

(vi)  $x^2 + 3x + 1 = (x-2)^2$

(vii)  $(x+2)^3 = 2x(x^2-1)$

(viii)  $x^3 - 4x^2 - x + 1 = (x-2)^3$

2. निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए :

(i) एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल  $528 \text{ m}^2$  है। क्षेत्र की लंबाई (मीटरों में) चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है।

(ii) दो क्रमागत धनात्मक पूर्णाकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णाकों को ज्ञात करना है।

(iii) रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु (वर्षों में) का गुणनफल अब से तीन वर्ष पश्चात् 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है।

(iv) एक रेलगाड़ी  $480 \text{ km}$  की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल  $8 \text{ km/h}$  कम होती, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है।

### 4.3 गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल

द्विघात समीकरण  $2x^2 - 3x + 1 = 0$  पर विचार कीजिए। यदि हम इस समीकरण के बाएँ पक्ष में  $x$  को 1 से प्रतिस्थापित करें, तो हमें प्राप्त होता है:  $(2 \times 1^2) - (3 \times 1) + 1 = 0 =$  समीकरण का दाँया पक्ष। हम कहते हैं कि 1 द्विघात समीकरण  $2x^2 - 3x + 1 = 0$  का एक मूल है। इसका यह भी अर्थ है कि 1 द्विघात बहुपद  $2x^2 - 3x + 1$  का एक शून्यक है।

व्यापक रूप में, एक वास्तविक संख्या  $\alpha$  द्विघात समीकरण  $ax^2 + bx + c = 0$ ,  $a \neq 0$  का एक मूल कहलाती है, यदि  $a\alpha^2 + b\alpha + c = 0$  हो। हम यह भी कहते हैं कि  $x = \alpha$  द्विघात समीकरण का एक हल है अथवा  $\alpha$  द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। ध्यान दीजिए कि द्विघात बहुपद  $ax^2 + bx + c$  के शून्यक और द्विघात समीकरण  $ax^2 + bx + c = 0$  के मूल एक ही हैं।

आपने अध्याय 2 में, देखा है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं। अतः, किसी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक दो मूल हो सकते हैं।

आपने कक्षा IX में सीखा है कि कैसे मध्य पद को विभक्त करके एक द्विघात बहुपद के गुणनखंड किए जा सकते हैं। हम इस ज्ञान का प्रयोग द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने में करेंगे। आइए देखें कैसे।

**उदाहरण 3 :** गुणनखंडन द्वारा समीकरण  $2x^2 - 5x + 3 = 0$  के मूल ज्ञात कीजिए।

**हल :** सर्वप्रथम, हम मध्य पद  $-5x$  को  $-2x - 3x$  [क्योंकि  $(-2x) \times (-3x) = 6x^2 = (2x^2) \times 3$ ] के रूप में विभक्त करते हैं।

$$\text{अतः, } 2x^2 - 5x + 3 = 2x^2 - 2x - 3x + 3 = 2x(x - 1) - 3(x - 1) = (2x - 3)(x - 1)$$

इसलिए,  $2x^2 - 5x + 3 = 0$  को  $(2x - 3)(x - 1) = 0$  के रूप में पुनः लिखा जा सकता है।

अतः,  $x$  के वे मान जिनके लिए  $2x^2 - 5x + 3 = 0$  वही है, जो  $(2x - 3)(x - 1) = 0$  से प्राप्त है, अर्थात्  $2x - 3 = 0$  या  $x - 1 = 0$  से प्राप्त होंगे।

अब,  $2x - 3 = 0$ ,  $x = \frac{3}{2}$  देता है और  $x - 1 = 0$ ,  $x = 1$  देता है।

अतः,  $x = \frac{3}{2}$  और  $x = 1$  दिए हुए समीकरण के हल हैं।

दूसरे शब्दों में, 1 और  $\frac{3}{2}$  समीकरण  $2x^2 - 5x + 3 = 0$  के मूल हैं।

**जाँच कीजिए** कि ये ही दिए गए समीकरण के मूल हैं।

**ध्यान दीजिए** कि हमने समीकरण  $2x^2 - 5x + 3 = 0$  के मूलों को  $2x^2 - 5x + 3$  के दो रैखिक गुणनखंडों में गुणनखंडित करके और प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर करके प्राप्त किए हैं।

**उदाहरण 4 :** द्विघात समीकरण  $6x^2 - x - 2 = 0$  के मूल ज्ञात कीजिए।

**हल :** हमें प्राप्त है:

$$\begin{aligned} 6x^2 - x - 2 &= 6x^2 + 3x - 4x - 2 \\ &= 3x(2x + 1) - 2(2x + 1) \\ &= (3x - 2)(2x + 1) \end{aligned}$$

$6x^2 - x - 2 = 0$  के मूल  $x$  के वे मान हैं, जिनके लिए  $(3x - 2)(2x + 1) = 0$  हो।

इसलिए  $3x - 2 = 0$  या  $2x + 1 = 0$

अर्थात्  $x = \frac{2}{3}$  या  $x = -\frac{1}{2}$

अतः  $6x^2 - x - 2 = 0$  के मूल  $\frac{2}{3}$  और  $-\frac{1}{2}$  हैं।

हम मूलों के सत्यापन के लिए यह जाँच करते हैं कि  $\frac{2}{3}$  और  $-\frac{1}{2}$  समीकरण  $6x^2 - x - 2 = 0$  को संतुष्ट करते हैं या नहीं।

**उदाहरण 5 :** द्विघात समीकरण  $3x^2 - 2\sqrt{6}x + 2 = 0$  के मूल ज्ञात कीजिए।

$$\begin{aligned} \text{हल : } 3x^2 - 2\sqrt{6}x + 2 &= 3x^2 - \sqrt{6}x - \sqrt{6}x + 2 \\ &= \sqrt{3}x(\sqrt{3}x - \sqrt{2}) - \sqrt{2}(\sqrt{3}x - \sqrt{2}) \\ &= (\sqrt{3}x - \sqrt{2})(\sqrt{3}x - \sqrt{2}) \end{aligned}$$

अतः समीकरण के मूल  $x$  के वे मान हैं, जिनके लिए

$$(\sqrt{3}x - \sqrt{2})(\sqrt{3}x - \sqrt{2}) = 0$$

अब  $x = \frac{\sqrt{2}}{3}$  के लिए,  $\sqrt{3}x - \sqrt{2} = 0$  है।

अतः यह मूल, गुणनखंड  $\sqrt{3}x - \sqrt{2}$  के दो बार आने के कारण, दो बार आता है, अर्थात् इस मूल की पुनरावृत्ति होती है।

इसलिए  $3x^2 - 2\sqrt{6}x + 2 = 0$  के मूल  $\frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{3}$  हैं।

**उदाहरण 6 :** अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएँ ज्ञात कीजिए।

**हल :** अनुच्छेद 4.1 में हमने ज्ञात किया था कि यदि कक्ष की चौड़ाई  $x$  m हो, तो  $x$  समीकरण  $2x^2 + x - 300 = 0$  को संतुष्ट करता है। गुणनखंडन विधि का प्रयोग कर, हम इस समीकरण को निम्न प्रकार से लिखते हैं :

$$2x^2 - 24x + 25x - 300 = 0$$

या  $2x(x - 12) + 25(x - 12) = 0$

अर्थात्  $(x - 12)(2x + 25) = 0$

अतः, दिए गए समीकरण के मूल  $x = 12$  या  $x = -12.5$  हैं। क्योंकि  $x$  कक्ष की चौड़ाई है, यह ऋणात्मक नहीं हो सकती।

इसलिए, कक्ष की चौड़ाई 12 m है। इसकी लंबाई  $= 2x + 1 = 25$  m होगी।

### प्रश्नावली 4.2

1. गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए:

(i)  $x^2 - 3x - 10 = 0$

(ii)  $2x^2 + x - 6 = 0$

(iii)  $\sqrt{2}x^2 + 7x + 5\sqrt{2} = 0$

(iv)  $2x^2 - x + \frac{1}{8} = 0$

(v)  $100x^2 - 20x + 1 = 0$

2. उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए।

3. ऐसी दो संख्याएँ ज्ञात कीजिए, जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो।

4. दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो।

5. एक समकोण त्रिभुज की ऊँचाई इसके आधार से 7 cm कम है। यदि कर्ण 13 cm का हो, तो अन्य दो भुजाएँ ज्ञात कीजिए।

6. एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत (₹ में) उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹ 90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए।

### 4.4 मूलों की प्रकृति

समीकरण  $ax^2 + bx + c = 0$  के मूल

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

द्वारा देय होते हैं। यदि  $b^2 - 4ac > 0$  है, तो हम दो भिन्न वास्तविक मूल  $-\frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

और  $-\frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$  प्राप्त करते हैं।

यदि  $b^2 - 4ac = 0$  है तो  $x = -\frac{b}{2a} \pm 0$ , अर्थात्  $x = -\frac{b}{2a}$  या  $-\frac{b}{2a}$  है।

अतः, समीकरण  $ax^2 + bx + c = 0$  के दोनों मूल  $-\frac{b}{2a}$  हैं।

इसलिए, हम कहते हैं कि इस स्थिति में द्विघात समीकरण  $ax^2 + bx + c = 0$  के दो बराबर वास्तविक मूल हैं।

यदि  $b^2 - 4ac < 0$  है, तो ऐसी कोई वास्तविक संख्या नहीं है, जिसका वर्ग  $b^2 - 4ac$  हो। अतः दिए हुए द्विघात समीकरण के इस स्थिति में कोई वास्तविक मूल नहीं हैं।

क्योंकि  $b^2 - 4ac$  यह निश्चित करता है कि द्विघात समीकरण  $ax^2 + bx + c = 0$  के मूल वास्तविक हैं अथवा नहीं,  $b^2 - 4ac$  को इस द्विघात समीकरण का **विविक्तकर (Discriminant)** कहते हैं।

अतः, द्विघात समीकरण  $ax^2 + bx + c = 0$  के

- (i) दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यदि  $b^2 - 4ac > 0$  हो
- (ii) दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, यदि  $b^2 - 4ac = 0$  हो
- (iii) कोई वास्तविक मूल नहीं होता, यदि  $b^2 - 4ac < 0$  हो

आइए कुछ उदाहरणों पर विचार करें।

**उदाहरण 7 :** द्विघात समीकरण  $2x^2 - 4x + 3 = 0$  का विविक्तकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए।

**हल :** दिया गया समीकरण  $ax^2 + bx + c = 0$  के प्रकार का है, जहाँ  $a = 2$ ,  $b = -4$  और  $c = 3$  है। इसलिए, विविक्तकर


$$b^2 - 4ac = (-4)^2 - (4 \times 2 \times 3) = 16 - 24 = -8 < 0 \text{ है।}$$

अतः, दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं हैं।

**उदाहरण 8 :** 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों A और B से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है, तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है?

**हल :** आइए सर्वप्रथम एक चित्र बनाएँ (देखिए आकृति 4.2)।

माना खंभे की अभीष्ट स्थिति P है। माना खंभे की फाटक B से दूरी  $x$  m है अर्थात्  $BP = x$  m है। अब खंभे की दोनों फाटकों की दूरियों का अंतर =  $AP - BP$  (या  $BP - AP$ ) = 7 m है। इसलिए,  $AP = (x + 7)$  m होगा।



आकृति 4.2

साथ ही,  $AB = 13\text{m}$  है। चूँकि  $AB$  व्यास है, इसलिए

$$\angle APB = 90^\circ \quad (\text{क्यों?})$$

इसलिए  $AP^2 + PB^2 = AB^2$  (पाइथागोरस प्रमेय द्वारा)

अर्थात्  $(x + 7)^2 + x^2 = 13^2$

अर्थात्  $x^2 + 14x + 49 + x^2 = 169$

अर्थात्  $2x^2 + 14x - 120 = 0$

अतः खंभे की फाटक B से दूरी 'x' समीकरण  $x^2 + 7x - 60 = 0$  को संतुष्ट करती है।

यह देखने के लिए कि ऐसा संभव है अथवा नहीं, आइए इसके विविक्तकर पर विचार करें। विविक्तकर है:

$$b^2 - 4ac = 7^2 - 4 \times 1 \times (-60) = 289 > 0$$

अतः, दिए गए द्विघात समीकरण के दो वास्तविक मूल हैं और इसीलिए खंभे को पार्क की परिसीमा पर गाड़ा जा सकता संभव है।

द्विघात समीकरण  $x^2 + 7x - 60 = 0$  को द्विघाती सूत्र से हल करने पर, हम पाते हैं:

$$x = \frac{-7 \pm \sqrt{289}}{2} = \frac{-7 \pm 17}{2}$$

इसलिए,  $x = 5$  या  $-12$  है।

चूँकि  $x$  खंभे और फाटक B के बीच की दूरी है, यह धनात्मक होना चाहिए। इसलिए,  $x = -12$  को छोड़ देते हैं। अतः,  $x = 5$  है।

इस प्रकार, खंभे को पार्क की परिसीमा पर फाटक B से 5m और फाटक A से  $\sqrt{13^2 - 5^2} = 12\text{m}$  की दूरी पर गाड़ना है।

**उदाहरण 9 :** समीकरण  $3x^2 - 2x + \frac{1}{3} = 0$  का विविक्तकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं, तो उन्हें ज्ञात कीजिए।

**हल :** यहाँ  $a = 3$ ,  $b = -2$ ,  $c = \frac{1}{3}$  है।

इसलिए विविक्तकर  $b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4 \times 3 \times \frac{1}{3} = 4 - 4 = 0$  है।

अतः द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल हैं।

ये मूल  $\frac{-b}{2a}, \frac{-b}{2a}$ , अर्थात्  $\frac{2}{6}, \frac{2}{6}$ , अर्थात्  $\frac{1}{3}, \frac{1}{3}$  हैं।

### प्रश्नावली 4.3

- निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए :
  - $2x^2 - 3x + 5 = 0$
  - $3x^2 - 4\sqrt{3}x + 4 = 0$
  - $2x^2 - 6x + 3 = 0$
- निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में  $k$  का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों।
  - $2x^2 + kx + 3 = 0$
  - $kx(x - 2) + 6 = 0$
- क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई, चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल  $800 \text{ m}^2$  हो? यदि है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
- क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।  
दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। चार वर्ष पूर्व उनकी आयु (वर्षों में) का गुणनफल 48 था।
- क्या परिमाण 80 m तथा क्षेत्रफल  $400 \text{ m}^2$  के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए।

### 4.5 सारांश

इस अध्याय में, आपने निम्न तथ्यों का अध्ययन किया है:

- चर  $x$  में एक द्विघात समीकरण  $ax^2 + bx + c = 0$  के प्रकार का होता है, जहाँ  $a, b, c$  वास्तविक संख्याएँ हैं और  $a \neq 0$  है।
- एक वास्तविक संख्या  $\alpha$  द्विघात समीकरण  $ax^2 + bx + c = 0$  का एक मूल कहलाती है, यदि  $a\alpha^2 + b\alpha + c = 0$  हो। द्विघात बहुपद  $ax^2 + bx + c$  के शून्यक और द्विघात समीकरण  $ax^2 + bx + c = 0$  के मूल एक ही होते हैं।
- यदि हम  $ax^2 + bx + c, a \neq 0$  के दो रैखिक गुणकों में गुणनखंड कर सकें, तो द्विघात समीकरण  $ax^2 + bx + c = 0$  के मूल, प्रत्येक गुणक को शून्य के बराबर करके, प्राप्त कर सकते हैं।
- द्विघाती सूत्र: द्विघात समीकरण  $ax^2 + bx + c = 0$  के मूल  $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$  द्वारा देय होते हैं, यदि  $b^2 - 4ac \geq 0$  हो।

5. एक द्विघात समीकरण  $ax^2 + bx + c = 0$ ,  $a \neq 0$  में,
- (i) दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यदि  $b^2 - 4ac > 0$  हो।
  - (ii) दो बराबर मूल (अर्थात् संपाती वास्तविक मूल) होते हैं, यदि  $b^2 - 4ac = 0$  हो और
  - (iii) कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, यदि  $b^2 - 4ac < 0$  हो।

© NCERT  
not to be republished